



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक



निगमित संप्रेषण और निवेशक संबंध
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, शिवाजीनगर, पुणे-5
टेली -020 :25614495, 25614366, 25514501 से 12 विस्तार

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत आइकॉनिक सप्ताह समारोह आयोजित करेगा

पुणे, 4 जून, 2022: बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश के सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक है। बैंक द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' आइकॉनिक सप्ताह समारोह के उपलक्ष्य में, 6 जून 2022 को पुणे और नासिक शहरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुणे में सिद्धि साज हॉल, एरंडवणे और नासिक में रावसाहेब थोरात ऑडिटोरियम, मैराथन चौक कार्यक्रम स्थल, उन 75 जिलों का हिस्सा हैं, जो इस आयोजन के लिए वर्चुअल रूप से जोड़े जा रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी, 6 जून 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के शुभ-अवसर को ध्यान में रखते हुए 6 जून का समारोह, पुणे और नासिक के उक्त दोनों स्थलों सहित सम्पूर्ण भारत के 75 शहरों में एक साथ लाइव मनाया जाएगा।

15 अगस्त, 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ को लक्ष्य करते हुए 75-सप्ताह के काउंटडाउन स्वरूप प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को "आजादी का अमृत महोत्सव" का उद्घाटन किया था। उसके बाद, "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह एक वर्ष अर्थात, 15 अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा।

वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 6 जून, 2022 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान 'आजादी का अमृत महोत्सव' (एकेएएम) के भाग के रूप में दिनांक 30 मई, 2022 को अपने 'आइकॉनिक सप्ताह' समारोह के बारे में प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया।

भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के दौरान 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, एक (शुक्रिया) गीत जारी किया गया, जो कोविड -19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई के अनाम नायकों और सबसे चुनौतीपूर्ण समय में वित्तीय प्रणाली को चालू रखने वालों को समर्पित है।

सप्ताह के दौरान होने वाली गतिविधियों का एक स्नैपशॉट प्रदान करने के लिए एक ई-बुकलेट भी प्रस्तुत की गई, जिसमें दो मंत्रालय - कॉर्पोरेट मामले और वित्त, अपनी उपलब्धियों, नई पहलों का प्रदर्शन करेंगे, साथ ही विगत वर्षों में हुए अपने विकास और प्रगति की एक दिलचस्प यात्रा को भी प्रदर्शित करेंगे।

आजादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक सप्ताह के दौरान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सभी विभाग अपने समृद्ध इतिहास और विरासत के साथ-साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने की तत्परता का प्रदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए, तीसरे दिन अर्थात 8 जून, 2022 को भारत में प्रतिभूति बाजार के विकास पर एक वृत्तचित्र जारी किया जाएगा और 11 जून, 2022 को, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी म्यूजियम, 'धरोहर', जो जब्त की गई सामग्री, प्राचीन वस्तुओं और सीमा शुल्क विरासत की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, उसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के दौरान कुछ अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रमों में सार्वजनिक खरीद में डेटा विश्लेषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शामिल है जो



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक



निगमित संप्रेषण और निवेशक संबंध
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, शिवाजीनगर, पुणे-5
टेली -020 :25614495, 25614366, 25514501 से 12 विस्तार

सार्वजनिक खरीद के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं पर विचार करेगा और सार्वजनिक खरीद में धन के अधिकतम सदुपयोग हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की दिशा में विचार-विमर्श करेगा। सार्वजनिक व्यय प्रबंधन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से संबंधित कुछ प्रमुख पहलों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
